

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 293]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHANA 27, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

सं. 78 (आर.ई.-2013)/2009-2014

विषय : प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया लागू किए जाने का आस्थगन।

फा. सं. 01/91/180/190/एम15.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 01.12.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 77 (आर.ई.-2013)/2009-14 के साथ पठित दिनांक 18.11.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 73 (आर.ई.-2013)/2009-14 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए दिनांक 18.11.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 73 (आर.ई.-2013)/2009-14 के द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया का कार्यान्वयन अगले आदेश तक आस्थगित किया जाता है।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया अगले आदेश तक आस्थगित कर दी गई है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 18th December, 2014

No. 78 (RE-2013)/2009-2014**Sub: Deferment of implementation of the procedure for export of certified organic products.**

F. No. 01/91/180/190/AM 15/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Public Notice No. 73 (RE-2013)/2009-2014 dated 18.11.2014 read with Public Notice No. 77 (RE-2013)/2009-2014 dated 01.12.2014:

2. The implementation of procedure notified vide Public Notice No. 73 (RE-2013)/2009-2014 dated 18.11.2014 in respect of export of certified organic products is deferred till further notification.

3. Effect of this Public Notice:

Procedure for export of Certified Organic Products has been deferred till further orders.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade